MOHINDRA FASTENERS LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC064215

Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087

FOSEEDING Rede
Website: www.mohindra.asia Email id: cs@mohindra.asia Phone: +91-11- 46200400, 46200401 Fax: +91-11-25282667

Fostening Redefined

To,

The Head Listing & Compliance Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. (MSEI) Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C-62, G-Block Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai -400098

Ref:- Symbol- MFL, Series - BE

Sub: <u>Information pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we attach herewith a copy of Newspaper advertisement of notice of Board meeting published on 05.11.2018 in The Financial Express and Jansatta. The same has uploaded on the "MYLISTING" portal and hosted on company's website as well i.e. www.mohindra.asia.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Mohindra Fasteners Limited

(Nidhi Pathak)

Company Secretary

Date: 05/11/2018

Place:- Delhi

पाक के 'शांति प्रयासों' को चीन का समर्थन

बेजिंग, 4 नवंबर (भाषा)।

चीन ने रविवार को कहा कि उसने भारत के साथ लंबित विवादों को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के बातचीत के जिए शांति की तलाश का समर्थन किया है। चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के साथ पाकिस्तान की वार्ता की हिमायत की है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली क्विंग के साथ यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कश्मीर मुद्दे का बिना कोई सीधे उल्लेख नहीं है। बयान में चीन ने भारत के साथ लंबित विवादों के समाधान के वास्ते संबंध सुधारने के पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन किया। संयुक्त बयान में कहा गया है, 'चीन परस्पर सम्मान और समानता के आधार पर वार्ता, सहयोग और बातचीत के जरिए शांति की पाकिस्तान की तलाश की प्रशंसा करता है। वह पाकिस्तान-भारत संबंधों में सुधार और दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों के समाधान के लिए पाकिस्तान के प्रयासों भी का समर्थन करता है।'

पाकिस्तानी सरजमीन में सरगर्म समृहों का 2016 में आतंकवादी हमलों और पाकिस्तान के

भारतीय ने जीती 27.2

लाख डॉलर की लॉटरी

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में मासिक

अबु धाबी में बतौर नक्शानवीस का काम

लॉटरी के जैकपॉट में एक भारतीय व्यक्ति ने

27.2 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि जीती है।

करने वाले ब्रिट्टी मारकोस नामक व्यक्ति का

कहना ह कि उसे उम्मीद थी कि वह जैकपाट

जीतेगा। 'गल्फ न्यूज' की खबर के मुताबिक

मारकोस केरल का रहने वाला है और 2004

से दुबई में रहता आ रहा है। वह पिछले दो

साल से 'बिग टिकट' का टिकट खरीदता था।

लेकिन वह कभी नियमित तौर पर नहीं लेता

था। मॉरकोस के हवाले से खबर में बताया

गया, 'कई लोग (केरल से) जीत रहे हैं। हर

बार मैं उम्मीद बरकरार रखता हं। लेकिन इस

दफा मुझे लग रहा था कि मैं जीतृंगा।' उसने

कहा, 'यह पांचवां मौका था जब मैंने टिकट

खरीदा।' उसने कहा, 'मेरी पत्नी और दो बच्चे

केरल में हैं। यहां मेरे ऊपर पहले से कर्ज था।

मैंने हाल में कछ और कर्ज ले लिया है। अभी

मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है लेकिन इन्हें

चुकाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी।

मारकोस ने एक करोड दिरहम (27.2 लाख

हाल के अमेरिकी अध्ययन में दावा किया

गया है कि सेलफोनों की ओर से उत्सर्जित

रेडियो-आवृत्ति विकिरण (आरएफआर) भले

ही चहे में कैंसर का कारक हो लेकिन यह

साफ प्रमाण हैं कि जब नर चुहे इस तरह के

विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में आते हैं,

जैसे सेल फोन में होता है, तो उनमें हृदय से

जुड़ी कैंसरयुक्त रसौली विकसित हो जाती है।

युएस नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम

(एनटीपी) को 30 मिलियन अमरीकी डॉलर

की लागत से इस अध्ययन को पूरा करने में

चीन में 31 वाहन भिडे

15 लोगों की मौत

चीन के उत्तर-पश्चिम गानसू प्रांत में राजमार्ग

पर कम से कम 31 वाहनों के आपस में टकराने

से 15 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर

वाहनों के क्षतिग्रस्त और जले हए टकडे बिखरे

पडे हैं। चीन के सरकारी समाचार पत्र 'चाइना

डेली' ने रविवार को बताया कि शनिवार को यह

दुर्घटना तब हुई जब एक ट्रक ने नियंत्रण खो

दिया और वह लानझोउ-हैकोउ एक्सप्रेसवे पर

एक टोल स्टेशन पर वाहनों की कतार से जा

टकराया। अधिकारियों ने बताया कि गानसू की

राजधानी लानझोउ के समीप टोल स्टेशन पर

हुई इस दुर्घटना में 44 अन्य लोग भी घायल हुए

हैं। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए

बेजिंग, ४ नवंबर (भाषा)।

अध्ययन से पता चला है कि इस बात के

अमेरिकी डॉलर) का जैकपॉट जीता है।

मैसाच्युसेट्स, ४ नवंबर (भाषा)।

तथ्य मनुष्यों पर लागु नहीं होता।

दुबई, ४ नवंबर (भाषा)।



बेजिंग के ग्रेट हाल आफ पीपुल में पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके चीनी समकक्ष ली क्विंग।

कब्जे वाले कश्मीर में भारत की सर्जिकल स्टाइक के बाद दोनों देशों के संबंधों में तल्खी आ गई है। कश्मीर मुद्दे पर चीन का बार-बार दोहराया जाने वाला रुख यह है कि यह बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। भारत इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने का समर्थन करता है लेकिन उसका यह भी कहना है कि वार्ता और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। पाकिस्तान अपनी ओर से दक्षेस के मंच पर चीन की सक्रिय भागीदारी

का समर्थन करता है।

चीन ने एनएसजी की सदस्यता के लिए पाकिस्तान के प्रयासों का मौन समर्थन किया है। चीन एनएसजी में भारत का प्रवेश इस आधार पर बाधित कर रहा है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वैसे, 48 सदस्यीय समृह के अधिकतर सदस्यों ने इसमें भारत के प्रवेश का समर्थन किया है। पाकिस्तान ने भी एनएसजी की सदस्यता के लिए आवेदन किया है।

आसिया के पति ने मांगी ट्रंप से मदद

इस्लामाबाद, 4 नवंबर (एएफपी)।

ईशनिंदा मामले के केंद्र में फंसी एक पाकिस्तानी महिला के पति ने देश छोड़ने में अंतरराष्ट्रीय मदद की गृहार लगाई है। उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा का डर है।

आसिया बीबी ईशनिंदा के आरोपों में 2010 से बीबी काल कोठरी में सजाए मौत का इंतजार कर रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन्हें बरी कर दिया। इस फैसले का कट्टर इस्लामवादियों ने तीन दिन तक विरोध किया। सरकार प्रदर्शन खत्म कराने के लिए बीबी को देश छोड़कर जाने से रोकने के लिए उन पर यात्रा रोक लगाने पर राजी हो गई है। बीबी की रिहाई के खिलाफ अब अपील दायर की गई है।

आसिया के पति आशिक मसीह ने सरकार के समझौते की आलोचना की है। मसीह ने कहा, 'मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हमें (देश) छोड़ने में मदद करने का अनुरोध करता हूं। मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री से हमें मदद करने, हमें अजादी दिलाने में यथासंभव प्रयास करने का अनुरोध करता हूं।' उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री से भी मदद मांगी है।

श्रीलंका: राष्ट्रपति ने 14 को बुलाई संसद की बैठक

सरकार ने दिया तिमल कैदियों की रिहाई का संकेत

कोलंबो, ४ नवंबर (भाषा)।

श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने 14 नवंबर को संसद की बैठक बुलाई है। इस बीच नवनियुक्त प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के सांसद बेटे नमल ने रविवार को इशारा किया कि जेलों में बंद तमिलों को रिहा किया जा सकता है। राष्ट्रपति के सचिव उदय आर सेनेविरातने

की ओर से रविवार शाम जारी गजट अधिसूचना में बताया गया कि संसद की बैठक 14 नवंबर को बुलाई गई है। पिछले महीने एक नाटकीय घटनाक्रम में राष्ट्रपति ने विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर राजपक्षे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बना दिया था। बर्खास्त प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने इसे असंवैधानिक कदम बताया था। उन्होंने संसद में अपना बहुमत साबित करने का दावा किया था।

इस बीच श्रीलंका के नवनियुक्त प्रधानमंत्री

सर्वेक्षण में पहले से ही यह अनुमान लगाया जा

रहा था कि एक बड़ा बहुमत फ्रांस के साथ

रहने के पक्ष में है। बहरहाल, इस तरह के भी

अंदेशे थे कि जनमत संग्रह कनक मूल

निवासियों और श्वेत आबादी के बीच तनाव

भड़का सकता है। कनक मूल निवासी आजादी

के पक्ष में हैं। श्वेत लोग 1853 में यहां बसे थे

जब फ्रांस ने इस द्वीपसमूह को अपने में मिला

महासागर में बढ़ते चीनी प्रभाव को लेकर

चिंता जताई है। चीन ने वनाउतु में काफी

निवेश किया है, जो 1980 में फ्रांस और ब्रिटेन

से अलग हुआ था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र न्यू

कैलेडोनिया प्रशांत महासागर में आधार बनाने

फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने प्रशांत

महिंदा राजपक्षे के सांसद बेटे नमल ने रविवार को इशारा किया कि जेलों में बंद तमिल समुदाय के लोगों को रिहा करने की इस अल्पसंख्यक समुदाय की पुरानी मांग को जल्द ही पूरा किया जा सकता है। इसे तमिल सांसदों का समर्थन पाने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। नमल ने तमिल भाषा में टुवीट किया, 'राष्ट्रपति (मैत्रीपाला सिरिसेना) और प्रधानमंत्री राजपक्षे जल्दी ही फैसला (इस बारे में) करेंगे।'

लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) के साथ 2009 में खत्म हुए युद्ध के बाद से ही श्रीलंका सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है कि जेल में बंद लिट्टे सदस्य, राजनीतिक बंदी हैं। तमिल समुदाय का आरोप है कि कई लोग लंबे समय से आतंकवाद निरोधी कानून के तहत जेल में बंद हैं। उनपर औपचारिक रूप से कोई आरोप नहीं लगाया

सिसिली में बाढ़ से 10 मरे : रोम, 4 नवंबर (एएफपी)। इटली के दक्षिणी द्वीप सिसली के पलेरमों में बाढ़ के कारण एक ही परिवार के नौ सदस्यों सिहत दस लोगों की मौत हो गई। बचाव सेवा के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

जनमृत संग्रह: न्यू कैलेडोनिया लोग इस द्वीप पर मतदान के योग्य थे। जनमत

ऐस एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड पंजी. कार्या. 20/157, पटकापुर, कानपुर-208001, उत्तर प्रदेश # CIN: L19111UP1990PLC012053 E-Mail id: aceexportsknp@gmail.com

#Ph: +91 9453026677, Website:- www.ace-shoes.com

नेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 ह साथ पठित 29 एवं 47 के अनुपालन में सुचित किया जाता है कि कम्पनी के नेदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 14 नवम्बर, 2018 को 4 बजे अप. में 20/157, गटकापुर, कानपुर–20800¹ में पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें 30.9.2018 को समाप्त तिमाही/छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.ace-shoes.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.msei.in पर देखी जा सकती है। सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुसार अपनाई गई कम्पनी की उपयक्त उदघाटन एवं आचरण संहिता के अनसार सचित किया जाता है कि कम्पनी का ट्रेडिंग विंडो 5 नवम्बर, 2018 से बोर्ड के बैठक की परिणाम की घोषणा के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगा। पुनः निदेशक, विनिर्दिष्ट कर्मचारी, इन्सायडर तथा आश्रित पारिवारिक सदस्य

ट्रेडिंग विंडो बंद' रहने के दौरान ऐस एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड की प्रतिभृतियों में त्र्यवसाय नहीं कर सकेंगे बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से तिथि: 4.11.2018

स्थानः कानपुर

आर.एस. रुफी वाकी (प्रबंध निदेशक) DIN: 00641653

MOHINDRA FASTENERS LIMITED Regd. Office: - 304. Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-87 CIN: L74899DL1995PLC064215 E-mail: cs@mohindra.asia Website: www.mohindra.asia

> Phone: +91-11-46200400, 46200401 Fax: +91-11-25282667 PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting (Serial No. 2018/BM/04) of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 13th November, 2018 at 01.00 P.M at factory (work) situated at 60TH K.M. Stone, Delhi-Rohtak Road, N.H. No. 10, V & P.O. Kharawar, Distt. Rohtak, Haryana-124001 inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended as on 30" September, 2018 and any other

Further, pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation 2015, the trading window shall remain closed from the date of 08° November, 2018 and will open 48 hours after the declaration of unaudited financial results of the company for a quarter & half year ended on 30" September, 2018. Further, it is clarify that Trading Window of the Company will remain closed for the insiders covered under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 read with "Company's code of conduct for Prohibition of Insider Trading Policy.

Further, details are also available on website of the company i.e. www.mohindra.asia as well as website of Stock Exchange i.e. By order of the Board For Mohindra Fasteners Limited

Place : New Delhi

Dated: 04" November, 2018 Company Secretary & Compliance Officer

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली 4था तल, जीवनतारा भवन, पटेल चौक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

उद्घोषणा

(Nidhi Pathak)

तिथि: 19.9.2018

(संजू स्नेहिल)

रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली

यूको बैंक बनाम ओम दत्त शर्मा

अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अधीन बिक्री की उदघोषणा i) श्री ओम दत्त शर्मा, पुत्र श्री शिव चरण शर्मा, निवासी 6, 1 ला एवं 2रा तल, नार्थ ब्लॉक, मार्केट रोड, विजय विहार, विश्वास पार्क के निकट, विजय विहार

ii) श्रीमती निनता शर्मा, पत्नी श्री शिव चरण शर्मा, निवासी 6, 1 ला एवं 2रा तल, नार्थ ब्लॉक, मार्केट रोड, विजय विहार, विश्वास पार्क के निकट, विजय विहार, नई दिल्ली

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर

iii) श्री नरेश शर्मा, पुत्र श्री मुल्क राज शर्मा, निवासी ए-115, राम दत्त एन्क्लेव, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 iv) श्री हरकेश शर्मा, पत्र श्री किशोरी मल शर्मा, निवासी बी-13, प्रेस एन्क्लेव, गली नं, 10, विकास नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059

1. जैसा कि रु. 13000/- की लागत के साथ सर्टिफिकेट डेब्टर्स से 13.7.2011 से मासिक रेस्ट्स के साथ 13.75% प्रति वर्ष की दर से ब्याज तथा विलम्बित

ब्याज के साथ रु. 10,93,381/- की राशि की वसूली के लिये पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II द्वारा टी.ए.न. 124/15 तिथि 25.2.2016 में रिकवरी प्रमाण पत्र तैयार किया गया है।

2. तथा, जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने अनुसुची में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है। 3. तथा जैसा कि रु. 13000/- की लागत के साथ प्रमाणपत्र डेब्टर्स से विलम्बित तथा 13.7.2011 से मासिक रेस्ट्स के साथ 13.75% की दर पर आगे के

ब्याज के साथ रु. 10.93.381/- की राशि उसके अंतर्गत बकाया है। 4. एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि अनुपस्थिति में 14.12.2018 को 11.00 बजे पूर्वा में साईट अर्थात् एन-6 के 1ला एवं 2रा तल, मार्केट रोड, विजय विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली में उपरोक्त संपत्ति की बिक्री सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

5. यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त सीडी'ज की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसुची में निर्दिष्ट हैं।

6. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसची में वर्णित बकाया राशि ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि. ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता

है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी। 7. ऐसे किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे।

8. बिक्री में जनता व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिवत अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से आमंत्रित हैं। संभावित क्रेता को नीलामी बिक्री के समय में मूल पैन कार्ड

9. यह बिक्री, आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-9.1 संलग्न अनुसुची में वर्णित विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रृटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

9.2 आरक्षित मुल्य जिससे कम में संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी, रु. 21.52 लाख तथा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 2.15 लाख है। 9.3 इच्छुक बोलीदाता बिक्री संचालक अधिकारी के पास रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली, खाता ''आर.सी. नं. 72/16'' के पक्ष में देय पे

आर्डर/डिमांड डाफ्ट द्वारा रु. 2.15 की धरोहर राशि (ईएमडी) का भगतान करना होगा। सफल बोलीदाता के मामले में उक्त राशि समायोजित की जायेगी असफल बोलीदाता ऑन साइट नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति पर तत्काल बिक्री संचालक अधिकारी से अपना ईएमडी वापस प्राप्त कर सकते हैं। 9.4 बोलीदाता **रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)** के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं। बोली अथवा बोलीदाता से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में लॉट को तत्काल फिर से नीलामी पर रखा जायेगा।

9.5. सफल/उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा बशर्ते उनकी बोली राशि आरक्षित मुल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मुल्य अपर्याप्त होता है अथवा उसे स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं। 9.6. सफल/उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के उपरांत धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी-

[, डीआरटी-], दिल्ली खाता ''आरसी नं. 72/16'' के पक्ष में ऊपर पैरा 9.3 में वर्णित रूप में 25% का डिमांड डाफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा। 9.7. सफल बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, उस दिन को छोडकर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रिकवरी अधिकारी-I. डीआरटी-I दिल्ली के समक्ष रु. 1000/- तक 2% तथा उससे अधिक की सकल राशि पर 19 की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, दिल्ली के पक्ष में देय पाउन्डेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली खाता ''आरसी नं. 72/16'' के

पक्ष में देय शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए। 9.8. निर्धारित अविध में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चुक करने वाले क्रेता को उस राशि

अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। 10. संपत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है आधार'' पर की जाएगी 11. अधोहस्ताक्षरी को उसका कोई भी कारण बताए बिना यदि अस्वीकार होता है तो किसी या सभी बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार निरस्त करने

तथा किसी भी नीलामी को स्थगित करने का अधिकार है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। संपत्ति की अनुसूची

संपत्ति या उसके ऐसा किसी अधिभारों दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर लॉट जहाँ सम्पत्ति चुककर्ता अथवा सह-ऋणधारक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का है के नाम के साथ बिक्री की जाने वाली किसी भाग पर गणना का विवरण जो संपत्ति पर देव है की गई राजस्व संपत्ति का विवरण मूल्य के अन्य कोई ज्ञआत विवरण एन-6, मार्केट रोड, बिजय विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली के प्रथम कोई जानकारी प्राप्त नहीं एवं दूसरे तल पर स्थित सम्पत्ति।

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 31 अक्टूबर, 2018 को दी गई।

जिंबाब्वे में नए भारतीय दूतावास भवन का शिलान्यास



हरारे, ४ नवंबर (भाषा)।

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रविवार को यहां नए भारतीय दुतावास भवन की नींव रखी। नए दुतावास में एक योग केंद्र भी बनाया जाएगा। नायडू अफ्रीका के तीन देशों की छह दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार रात यहां पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य बोत्सवाना, जिंबाब्वे और मलावी के साथ भारत के राजनियक

सेलफोन विकिरण से इंसानों को नुकसान नहीं

अमेरिका में तीन करोड़ डॉलर से 10 साल तक हुए अध्ययन के नतीजे

10 साल का समय लगा है। इसमें विकिरण

के संपर्क में आए नर चृहों के मस्तिष्क और

एड्रेनल ग्रंथि में रसौली के कुछ सुबृत भी

संगठनों और वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की

इंटर एजंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर

(आइएआरसी) को आरएफआर के

वर्गीकरण को मौजुदा समृह 2बी (संभावित

मानव कैंसरजन) से समृह 1 (मानव

कैंसरजन) में उन्नयन करना होगा। लेकिन

विशेषज्ञ एजंसियों ने जोर देकर कहा है कि

गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण

Gogia Capital Services Limited CIN: L74899DL1994PLC059674

Regd. Off.: 100A/1, Right Wing The Capital Court, Ground

Floor, Shopping centre, Munirka -III, New Delhi -110067

Email: compliance@gogiacap.com,

Website: www.gogiacap.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with

Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of

Directors of the Company will be held on Tuesday, 13th November,

2018 inter-alia to consider, approve and take on record the Un-

audited Financial Results of the Company for the guarter and six

For the above mentioned purpose, Trading Window for dealing

in the shares of the Company by the designated persons will be

closed from November 08, 2018 to closing business hours of

November 14, 2018 (both days inclusive), pursuant to SEBI

This notice is also available on the website of BSE Limited

(www.bseindia.com) where the shares of the company are listed

For, Gogia Capital Services Limited

Megha Bahel

(Company Secretary &

Compliance Officer)

and on the website of the Company (www. gogiacap.com).

(Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

months ended September 30, 2018.

Date: November 5, 2018

Place: New Delhi

यह खोज मनुष्यों पर लागू नहीं होती है।

रिपोर्ट के बाद, कुछ गैर सरकारी

सामने आए हैं।

सहयोग को मजबूत करना है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर कहा, 'उपराष्ट्रपति ने जिंबाब्वे के हरारे में शिलान्यास कार्यक्रम में नए दूतावास की नींव रखी। नए भारतीय दुतावास भवन में विशिष्ट वास्तुकलाएं, जैसे कि अशोक चक्र और एक योग केंद्र होगा।' नायडू ने कहा, 'यह भवन हरारे में अनूठी इमारत होगी। इससे भारत-जिंबाब्वे संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।' नायडु ने जिंबाब्वे में भारत के राजदुत आर मसाकुई और हरारे में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की मौजूदगी में इस भवन की नींव रखी।

इस भवन में भारतीय राजदूतों और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय और आवास होंगे। यह 17.8 एकड़ भूमि पर फैला हुआ होगा। नायडु ने इस मौके पर एक पट्टिका का भी अनावरण किया। भारत और जिंबाब्वे ने शनिवार को खनन, सूचना और संचार तकनीक, वीजा में छुट और पारंपरिक औषधि के क्षेत्रों समेत छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नायडु ने जिंबाब्वे के राष्ट्रपति एमर्सन मनांगाग्वा से भी मलाकात की।

(आइसीएनआइआरपी) पर अंतरराष्ट्रीय

आयोग ने स्पष्ट रूप से इस अध्ययन की

जानकारी देते हुए एक नोट प्रकाशित किया

है कि यह अध्ययन वर्तमान में आरएफआर

के लिए मौजूदा सुरक्षा दिशा-निर्देशों को

बदलने के लिए कोई कार्रवाई योग्य आगत

प्रदान नहीं करता है। आइसीएनआइआरपी

की अनुशंसाएं डब्लूएचओ जैसी संस्थाएं

और कई देश स्वीकार करते हैं। यहां

उल्लेख किया जा सकता है कि आरएफआर

के लिए भारत के सुरक्षा दिशा-निर्देश

आइसीएनआइआरपी मानकों में से केवल

नौमिया, ४ नवंबर (एएफपी)।

प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपसमूह न्यू कैलेडोनिया में रविवार को हुए जनमत संग्रह में फ्रांस का ही हिस्सा बने रहने का फैसला हुआ। जनमत संग्रह के प्राथमिक नतीजों में यह बात उभर की आई है।

न्यू कैलेडोनिया में फ्रांस से आजादी के मुद्दे पर जनमत संग्रह हुआ था जिसपर लोगों की नजर थी। फ्रांसीसी मुख्यभूमि से करीब 18 हजार किलोमीटर दूर यह इलाका प्रशांत क्षेत्र के लिए देश का एक अहम ठिकाना है। इस क्षेत्र में चीन के बढते प्रभावों के कारण रणनीतिक महत्व रखता है। यहां से दुनिया को एक चौथाई निकल की आपूर्ति होती है, जो इलेक्टानिक साजो-सामान के लिए अत्यंत महत्त्वपर्ण है।

स्थानीय निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 70 फीसद मतपत्रों की गणना की जा चुकी है।

इसमें 59.5 फीसद लोगों ने न्यू कैलेडोनिया के आजाद देश बनने के विचार का विरोध किया है। करीब पौने दो लाख

कार्पोरेशन बैंक

SVAM SOFTWARE LIMITED (CIN: L72200DL1992PLC047327) Regd. Office: S-524, Vikas Marg Shakarpur Delhi 110092 E-mail id: svamsoftwareltd@gmail.com Website: www.svamsoftwareltd.in NOTICE

लिया था।

के लिए चीन का

अगला लक्ष्य हो

सकता है।

को नहीं चाहिए आजादी

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors will be held on Tuesday, 13" November, 2018, inter alia, to consider and approve the Unaudited Quarterly Financial Result of the Company for the guarter ended on 30" September 2018 along with any other business if any. The said notice may be accessed on the

Company's website at www.svamsoftwareltd.in and may also be accessed at Stock Exchange Website as www.bseindia.com For Svam Software Limited

Place: Delhi Manisha Agarwal Date: 05.11.2018 Managing Director

प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग. मंगलूर - 575 001.

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बेंक

नोटिस

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि अन्य मदों के साथ दिनांक 30 सितम्बर 2018 को समाप्त, बैंक के द्वितीय तिमाही / अर्द्धवार्षिक के अलेखापरीक्षित (समीक्षित) वित्तीय परिणाम को स्वीकार करने हेत् बैंक के निदेशकों की बैठक, दिनांक 13 नवंबर 2018 को निर्धारित है.

हस्ता/-(एस.के. दास)

स्थान: मंगलुरू कंपनी सचिव दिनांक: 03.11.2018

OSBI

पेन्शन, भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी विभाग, कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, 16 वीं मंजिल, मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

भारतीय स्टेट बैंक ने इंश्योरेन्स ब्रोकर्स की सूचीबद्धता हेतु प्रस्ताव के लिए

अनुरोध (आरएफपी) जारी किया है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi पर 'प्रोक्योरमेन्ट न्यूज' देखें.

दिनांक: 05.11.2018

उप महाप्रबंधक (पीएम व पीपीजी विभाग)



फीसद

ही हैं।

आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड Phones: 91-11-66155129/+91-120-4588500/ Fax No: +91-120-4588513 e-mail: info@raclgeartech.com/ Website: www.raclgeartech.com,

CIN No.: L34300DL1983PLC016136 भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 12 नवम्बर, 2018 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही तथा

छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.raclgeartech.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

हितेश कुमार

आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड के लिए

तिथि: 3 नवम्बर, 2018 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स्थानः नोएडा

क्यूबा के राष्ट्रपति उत्तर कोरिया के दौरे पर

सोल, ४ नवंबर (एएफपी)।

जांच चल रही है।

क्युबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-केनल उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उनकी इस यात्रा को प्योंगयांग ने ऐतिहासिक बताते हुए इसे दो सहयोगियों के बीच अट्ट दोस्ती करार दिया है। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच वार्ता रूकी हुई है और वाशिंगटन क्यूबा पर ताजा आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। लगभग आधी सदी तक चले वैमनस्य के बाद अमेरिका के क्यूबा के साथ संबंध 2015 में बहाल हुए थे। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर तल्खी आई है।

वेंक ऑफ़ इंडिया Bank of India Relationships beyond banking

रामनगर शाखा : कोसी रोड, निकट एसबीआई मुख्य शाखा, रामनगर ईमेलः ramnagar.dehradun@bankofindia.co.in

कब्जा स्चना (८ नियम (१) के तहत अचल संपत्ति के लिए)

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और प्नः गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के तहत बैंक ऑफ इण्डिया का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को नीचे लिखी दिनाक को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमे उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भ्गतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता उक्त राशी का भ्गतान करने में असफल हो गए है इसलिए एतदद्वारा उधारकर्ता को सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी ने इसमें वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्शाक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत निम्नलिखित दिनाक को कब्जा ले लिया है उधारकर्ताओं को विशेष रूप से सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है की वे उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ इण्डिया के अधीन होगा द्य धारा 13 की उपधारा 8 में उपलब्ध समय के अनुसार ऋणी का ध्यान बंधक संपत्ति को उन्मोचित किये जाने हेतू आमंत्रित किया जाता है। संपत्तियों का विवरण जहां पर कब्जा कर लिया गया है, इस प्रकार है:

	<u> </u>	<u>, </u>		UI UI	
क्र.सं.	कर्जदार का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	बकाया राशी (रु में)	मांग सूचना की तारीख	कब्जे की तारीर
1	श्री दिगम्बर सिंह व श्रीमती भगवती देवी (उधारकर्ता) जमानतदार 1. समीर सिंह बिष्ट 2. भूपेंद्र सिंह नेगी	सर्वेक्षण संख्या – 007, खसरा संख्या 90 मिन और 91 मिन, ग्राम भवानीपुर छोटी, तहसील रामनगर जिला, नैनीताल में स्थित संपत्ति का सभी भाग – क्षेत्रफल 69.70 वर्ग मीटर श्री दिगंबर सिंह के नाम पर। चतुर्थ सीमाए : पूर्व– भूपेंद्र सिंह नेगी की जमीन, पश्चिम–आशा नेगी की जमीन, उत्तर–गूल, दक्षिण– 15 फीट चौड़ा कच्छ रास्ता	Rs. 14,73,273/- +ब्याज और अन्य शुल्क दिनांक 30.05.2018 से प्रभावी	02.07.2018	29.10.201
2	श्री समीर सिंह बिष्ट श्रीमती गीता बिष्ट (उधारकर्ता) जमानतदार 1. श्री ललित भट्ट 2. श्री भूपेंद्र सिंह	सर्वेक्षण संख्या – 007, खसरा संख्या 90 मिन और 91 मिन, ग्राम भवानीपुर छोटी, तहसील रामनगर जिला नैनीताल में स्थित संपत्ति का सभी भाग – क्षेत्रफल 750 वर्ग गज श्री समीर सिंह बिष्ट के नाम पर। चतुर्थ सीमाए : पूर्व– राकेश कुमार पुरी की भूमि , पश्चिम– पूनम पुरी और विराट अरोड़ा की भूमि, उत्तर-पूनम पुरी की भूमि, दक्षिण– गंगा सिंह नेगी, भारत सिंह ताडियाल और आशा नेगी की भूमि	Rs. 15,09,671/- +ब्याज और अन्य शुल्क दिनांक 31.07.2018 से प्रभावी	20.08.2018	29.10.2018
देनांकः	04.11.2018	स्थानः रामनगर	प्राधिकृत	अधिकारी बैंक	ऑफ इंडि

FINANCIAL EXPRESS

AADHAAR VERDICT

Stronger safeguards to speed up India's digital journey: UIDAI CEO

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, November 4

THE RECENT SUPREME **COURT** verdict on Aadhaar has ensured stronger safeguards which will accelerate India's digital journey, UIDAI CEO Ajay Bhushan Pandey has said.

Pandey confirmed that the Aadhaar-issuing body Unique Identification Authority of India (UIDAI) has initiated the process of deleting the authentication log beyond six months, as directed by the apex court.

The Supreme Court had, in a landmark verdict in September, restricted the use of Aadhaar authentication by private entities in the absence of a legal provision, but allowed its mandatory use for welfare schemes, filing of income tax (I-T) returns and allotment of Permanent Account Number (PAN).

Since the verdict, the UIDAI has clarified that service providers can also use offline verification tools like eAadhaar, masked Aadhaar and Quick Response (QR) code that leverage the

PRESS TRUST OF INDIA

IN A FIRST for India, British

banking major HSBC has exe-

cuted a trade finance transac-

tion involving an export by

Reliance Industries (RIL) to an

American client using the

blockchain, which massively

reduced the time taken for pro-

ter of credit transaction facili-

tated a shipment between

Reliance and the US-based Tri-

con Energy, a joint statement

issued by HSBC India and

Reliance said. "The use of

blockchain offers significant

potential to reduce the time-

lines involved in exchange of

export documentation from the

extant seven-ten days to less

than a day," RIL joint chief finan-

WISHING

Toll Free No.: 1800-233-4526

Website: www.bankofmaharashtra.in Net Banking: https://www.mahaconnect.in

Particulars

1. Total Income from operations (refer note 2)

Total comprehensive Income for the period

Earnings per equity share (of Rs 10 each)

for continuing and discontinued operations

comprehensive income (after tax)]

website (www.shrirampistons.com).

would have been as follows:

Revenue form operations

Total income from operations

Other Income

Particulars

Equity share capital

(1) Basic

(2) Diluted

Net Profit /(loss) for the period (before tax and exceptional items)

4. Net Profit /(loss) for the period after tax (after exceptional items)

[Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other

Net Profit /(loss) for the period before tax (after exceptional items)

The blockchain-enabled let-

cessing the documents.

Mumbai, November 4



UIDAI CEO Ajay Pandey

unique ID without authentication or any access to biometrics.

It has recently written to the banks clarifying that Aadhaar eKYC can be only used to authenticate beneficiaries of government subsidies and welfare schemes while for other customers physical or electronic offline Aadhaar (in a masked form) can be used for verification, so that such customers can also be served digitally.

Noting that Aadhaar neither tends to create a "surveillance state", nor infringed the right to privacy, the SC declared that the Centre's biometric identity project was constitutionally valid but limited the scope, ruling that it is not mandatory for

A first for India: HSBC pays for RIL via blockchain

cial officer Srikanth

Venkatachari was

quoted as saying

platform was inte-

grated with the elec-

tronic bill of lading

(eBL) platform to

issue and manage an

electronic bill of lad-

ing, it said, adding

this allows a digital

transfer of the title of

goods from the seller

to the buyer in the

The statement

Do not share your internet banking details, such as, user ID /Password or your Credit /

SHRIRAM PISTONS & RINGS LTD.

Regd. Office: 3rd Floor, Himalaya House, 23, Kasturba Gandhi Marg. New Delhi - 110 001

Tel.: +91 11 2331 5941 Fax: +91 11 2331 1203, Website: www.shrirampistons.com

E-mail: compliance.officer@shrirampistons.com, CIN: L29112DL1963PLC004084, PAN: AAACS0229G

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and six months ended September 30, 2018

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under

As per the requirement of IND AS and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the

Quarterly Financial Results is available on the websites of the stock exchange (www.nseindia.com) and company's

revenue from operations for the corresponding reporting periods till 30th September 2017 were / are reported inclusive

of excise duty. With the implementation of Goods and Services Tax (GST) w.e.f 1st July 2017 replacing excise duty,

service tax and various other indirect taxes, the revenue for the quarter ending 30th September 2018 is reported net

of GST. Had previously reported revenues were shown net of excise duty, the comparative revenue of the Company

3. The above results were reviewed and recommended by Audit committee at its meeting held on 03rd. November, 2018 and

taken on record and approved by Board of directors at its meeting held on 03rd November, 2018.

Debit card number / CVV / OTP with anyone, either over phone or through email

underlying trade.

The blockchain

in the statement.

bank accounts, mobile connections or school admissions.

Rulingthat Aadhaar authentication data cannot be stored for over six months, the court also directed the government not to issue Aadhaar to illegal immigrants. "The SC has asked us to delete the authentication log beyond six months. We have initiated the process," Pandey said. "The apex court has said no

illegal immigrant should be given Aadhaar, so we have started reviewing our own process on how we can make scrutiny of the document more rigorous... We are taking a number of steps to implement the order to enhance safeguards," he added.

The SC had also asked the government and the UIDAI to take a series of steps to enhance safeguards and privacy of people who use Aadhaar. "This would certainly take us miles ahead in our digital journey with augmented safety. India's digital journey will get a boost because it's now supported by stronger data protection safeguards," he said.

claimed that the solution is a

significant improvement for

any organisation involved in

buying and selling goods inter-

nationally, as it brings together

all parties on one platform.

Read, Office: - 20/157, PATKAPUR, KANPUR-208 001, UTTAR PRADESH

CIN: L19111UP1990PLC012053 E-Mail id: aceexportsknp@gmail.com

#Ph: +91 9453026677, Website; - www.ace-shoes.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 & 47 read with Regulation 33 of SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations

2015, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors

lovember, 2018 at 4.00 P.M. at Registered Office at 20/157.

Patkapur, Kanpur-208001 inter-alia to consider and approve the Unaudited Financial results of the Company for the Quarter

The said notice may be accessed on the Company's Website at

www.ace-shoes.com and may also be accessed on the Stock

n this connection as per the company's codes of fair Disclosure

rading) Regulations, 2015, this is to intimate that the trading indow of the company will continued to be closed for all

siders from 05th November, 2018 and shall be opened 48

urther, The Directors, Designated Employees insiders and

dependent family member cannot trade in Securities of the Ace exports Limited, during the "Closure of Trading Widow"

For & On behalf of the Board ACE EXPORTS LIMITED

R.S Roofi Waki (Managing Director) DIN: 00641653

ours after the intimation of outcome of Board Meeting.

& Conduct adopted pursuant to SEBI (Prohibition of Insider

Half Year ended 30-09-2018.

Own house is a big dream for you,

Give us chance to make it true!

MAHASUPER

Flat | Villa | House

RATE OF INTEREST 8.75%

EMI: ₹ 787/- per Lakh

Free: Last 2 EMI

50% Concession on

Processing Fees*

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

Bank of Maharashtra

एक परिवार एक बैंक

Standalone

Period

Ended 30th

September

Unaudited

96394

10815

10815

7039

7008

2237

31.46

31.46

3 Months

Ended 30th

September

Unaudited

49976

5396

5396

3489

3298

2237

15.60

15.60

(Amount in lakhs Rs.

3 Months

Ended 30th

September 2017

Unaudited

42864

5205

5205

3383

3378

2237

15.12

15.12

(Amount in lakhs Rs.)

3 Months Ended

September

30th 2017

42205

578

42783

REPAYMENT: 30 YEARS

HOME LOAN

Exchange websites at www.msei.in.

of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 14th

FPI outflow hits 2-yr high in October

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, November 4

OVERSEAS INVESTORS PULLED out a massive ₹38,900 crore (over \$5 billion) from the capital markets in October, the steepest outflow in nearly two years, on rising crude oil prices, depreciating rupee and worsening current account deficit. With this, the total outflow from the capital markets (equity and debt together) has reached over ₹1 lakh crore so far this year.

According to the latest depository data, foreign portfolio investors (FPIs) withdrew a net sum of ₹28,921 crore from equities in October and ₹9,979 crore from the debt market, taking the total to ₹38,900 crore (\$5.2 billion).

This was the highest outflow since November 2016, when FPIs had pulled out ₹39,396 crore from the capital markets.

FPIs have been net sellers almost throughout this year barring some months such as January, March, July and August. In these four months, overseas investors put in funds

VALUATION

- ASSETS BRANDS
 - BUSINESS
- SWEAT EQUITY

ANMOL SEKHRI CONSULTANTS P. LTD.

e-mail: corpassistance@yahoo.co.in website: www.valuationsekhri.com

S.R. Industries Limited CIN: L29246PB1989PLC009531 Regd. Off: E-217, Industrial Area, Phase 8B, Mohali Punjab - 160071 Website: www.srfootwears.com Email: info@srfootwears.com Tel; +91 172 4602888

NOTICE 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is ereby given that the 195th Meeting of Board of Directors of the company will be held on Wednesday, the 14th day of November, 2018, nter-alia, to take on record the Un-audite

Financial Results of the company for the quarte and half year ended 30th September, 2018. This information is also available on the Company's website at www.srfootwears.com and on the website of the stock exchange where securities of the company are listed, viz BSE Ltd. www.bseindia.com (Scrip code

For S. R. Industries Ltd.

Amit Mahajan

513515, Scrip Name: SRIND)

TRIDEV INFRAESTATES LIMITED (Formerly Known as Ashutosh Paper Mills Limited) (CIN: L21012DL1988PLC033812)

gd. Office: 269 G/F Triveni Apartment Swayam Sewa CGHS Limited Jhilmil Colony Delhi 110095 E-mail id: ashutoshpapermills@gmail.com Website: www.tridevinfraestates.in NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors will be held on Tuesday, 13" November, 2018, inter alia, to consider and approve the Unaudited Quarterly Financial Result of the Company for the guarter ended on 30" September, 2018 along with other business if any.

The information contained in this notice available on the Company's website at www.tridevinfraestates.in and may also be accessed at Stock Exchange website as www.bseindia.com.

For Tridev Infraestates Limited

Place: Delhi Sunil Kumar Agarwal **Managing Director** Date: 05.11.2018

ABHINAV LEASING AND FINANCE LTI (CIN: L67120DL1984PLC018748) Regd. Office: S-524, lst Floor, Vikas Marg Shakarpur Delhi 110092 E-mail ID: abhinavleasefinltd@gmail.com website: www.abhinavleasefinltd.in

Notice is hereby given that pursuant t Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors will be held on Tuesday, 13" November, 2018, inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the guarter ended on 30" September, 2018 along with other

The information contained in this notice available on the Company's website at www.abhinavleasefinltd.in and the website of Stock Exchange as www.bseindia.com.

For Abhinav Leasing and Finance Limited

Mamta Agarwal Date: 05.11.2018 Managing Director

SCHABLONA INDIA LTD. CIN: L51109DL1983PLC318655

Regd. Office: 82/19 Bhakerwara Road. Mundka, New Delhi-110 041 Phone No.:011-28341085 Share Dept.: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001

Phone No.: 033-22487406/5913 Email: silinvestors@schablona.in Website: www.schablona.in

NOTICE

Pursuant to Regulations 29(1)(a) and 47(1)(a) of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held in Noida on Tuesday, the 13th November, 2018, to

consider inter alia, the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and Six-Months ended 30th September, 2018, along with the Segment wise Revenue, Results and Capital Employed and the Statements of Assets and Liabilities as on that date. The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.schablona.in and on the website of the Stock Exchange where the Company's

Limited at www.bseindia.com For Schablona India Limited Sd/- N. Goenka

Director

shares are presently listed, i.e. BSE

Mr. Rakesh Gupta

Gupta (Director),

Goel & Others.

Mr. Pradeep Kumar

(Director), Mrs. Archana

totalling over ₹32,000 crore. Selling by foreign investors intensified towards Septemberend, when they had pulled out

over ₹21,000 crore and has continued unabated since then.

"Hike in rates by the US Fed, rising crude oil prices, falling

rupee, worsening CAD, uncertainty over the government's ability to meet the fiscal deficit target and the impact of these

factors on the macro-economic condition are the primary concern areas," said a senior analyst by Morningstar.

RAMNAGAR BRANCH वेंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

Kosi Road, Near SBI Main Branch, Ramnagar Email: ramnagar.dehradun@bankofindia.co.in **POSSESSION NOTICE** {For immovable property under Rule 8(1)} Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise

of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The Bank issued demand notices on the date mentioned against account and stated hereinafter calling upon them to repay the amount within sixty days from the date of receipt of said notices. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken the Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealing with the property will be subject

to the charge of Bank of India for the amounts and interest thereon. The borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time, available, to redeem the secured assets. **Detail of Properties where Possession had been taken is as follows:**

SL. NO	Name of the Borrower & Guarantor /'s	Description of the property mortgaged & Owner of the Property	Amt o/s [as mentioned in the Notice u/s 13(2)]	Date of Demand Notice	Date of Possession	
1	Sh. Digamber Singh Mrs. Bhagwati Devi (Borrower) Guarantors: 1.Sameer Singh Bisht 2.Bhupendra Singh Negi	All the part and parcel of the property situated at survey no – 007, Khasra no- 90 min and 91 min, village Bhawanipur chhoti Tehsil – Ramnagar District Nainital admeasuring area of 69.70 sq. mtrs. in the name of Mr. Digamber Singh. Bounded: East- Land of Bhupender Singh Negi, West- Land of Asha Negi, North- Gool, South- 15 feet wide kachha raasta.	Rs.14,73,273/- +Interest & other charges w.e.f 30.05.2018	02.07.2018	29.10.2018	
2	Sh. Sameer Singh Bisht Mrs. Geeta Bisht (Borrower) Guarantors: 1. Mr. Lalit Bhatt 2. Mr. Bhupendra Singh	All the part and parcel of the property situated at survey no – 007, Khasra no- 90 min and 91 min, village Bhawanipur chhoti Tehsil – Ramnagar District Nainital admeasuring area of 750 sq. ft. in the name of Mr. Sameer Singh Bisht. Bounded: East- Property of Rakesh Kuma Puri, West- Land of Poonam Puri and Virat Arora, North- Land of Poonam Puri, South-Land of Ganga Singh Negi, Bharat Singh Tadiyal & Asha Negi	Rs.15,09,671/- +Interest & other charges w.e.f 31.07.2018	20.08.2018	29.10.2018	
Date :	04.11.2018	Place : Ramnagar	Autho	rised Officer E	Bank Of India	

MOHINDRA FASTENERS LIMITED Regd. Office:- 304, Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-87

CIN: L74899DL1995PLC064215 E-mail: cs@mohindra.asia Website: www.mohindra.asia Phone: +91-11-46200400, 46200401 Fax: +91-11-25282667 PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting (Serial No. 2018/BM/04) of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 13" November, 2018 at 01.00 P.M at factory (work) situated at 60TH K.M. Stone, Delhi-Rohtak Road, N.H. No. 10, V & P.O Kharawar, Distt. Rohtak, Haryana-124001 inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended as on 30th September, 2018 and any other

business(s). Further, pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation. 2015, the trading window shall remain closed from the date of 08' November, 2018 and will open 48 hours after the declaration of unaudited financial results of the company for a quarter & half year ended on 30th September, 2018. Further, it is clarify that Trading Window of the Company will remain closed for the insiders covered under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 read with "Company's ode of conduct for Prohibition of Insider Trading Policy

www.mohindra.asia as well as website of Stock Exchange i.e. By order of the Board For Mohindra Fasteners Limited (Nidhi Pathak) Place : New Delhi

Dated: 04th November, 2018 Company Secretary & Compliance Officer

Further, details are also available on website of the company i.e.

Gogia Capital Services Limited

CIN: L74899DL1994PLC059674 Read. Off.: 100A/1, Right Wing The Capital Court, Ground Floor, Shopping centre, Munirka - III, New Delhi - 110067 Email: compliance@gogiacap.com,

> Website: www.gogiacap.com NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 13th November 2018 inter-alia to consider, approve and take on record the Un audited Financial Results of the Company for the quarter and six months ended September 30, 2018.

For the above mentioned purpose, Trading Window for dealing in the shares of the Company by the designated persons will be closed from November 08, 2018 to closing business hours of November 14, 2018 (both days inclusive), pursuant to SEB (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

This notice is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the shares of the company are listed and on the website of the Company (www. gogiacap.com)

For, Gogia Capital Services Limited

Date: November 5, 2018 Megha Bahel Place: New Delhi

Half Year

(Company Secretary & Compliance Officer)

Quarter

JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

Regd. Office: Sector-128, Noida-201 304 [U.P] Head Office: "JA House", 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057 Phone: +91 (120) 4609000; FAX: +91 (120) 4609464; CIN: L14106UP1995PLC019017 Website: www.jalindia.com, e-mail: jal.investor@jalindia.co.in

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30[™] SEPTEMBER, 2018

Quarter

₹ Lakhs

Year

	Particulars	30.09	ded 0.2018 udited]	30.09	ded 9.2018 udited]	30.0	nded 9.2017 udited]	End 31.03	ded .2018 lited]
1.	Total Income from Operations		190388		359470		84243	6	314308
2.	Net Profit / (Loss) for the period [before Tax, Exceptional and Extraordinary Items]		(4053)		(13364)		(20906)	(2	26356)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax [after Exceptional and Extraordinary Items]		(4068)		(32570)		(18648)		35171
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax [after Exceptional and Extraordinary Items]		(4068)		(32570)		(18648)		35171
5.	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]		(4068)		(32570)		(18837)	39	34171
6.	Equity Share Capital [of ₹ 2/- per share]		48649		48649		48649	8	48649
7.	Other Equity [excluding Revaluation Reserve]		852863		852863		1011999	9	84464
8.	Earnings Per Share [of ₹ 2/- per share] [for continuing and discontinued operations]:								
	Basic	₹	(0.17)	₹	(1.34)	₹	(0.76)	₹	1.45
	Diluted	₹	(0.17)	₹	(1.34)	₹	(0.73)	₹	1.45

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter & Half Year ended 30th September, 2018 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter & Half Year Ended 30th September, 2018 Financial Results are available on the Stock

Exchanges Website www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's Website. www.jalindia.com.

Place: New Delhi Dated: 3rd November, 2018

Joshi Hospital, Karol Bagh, New

Delhi - 110005

MANOJ GAUR **Executive Chairman** DIN 00008480

North: Road, South: House No. 135.

(AUTHORISED OFFICER) UNION BANK OF INDIA

East: Road, West: House No. 133



यूनियन बैंक 🕼 Union Bank POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTIES

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of Union Bank of India, under the Securitisation and Reconstruction of

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrower(s) mentioned below to repay the amount mentioned in the demand notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the dates mentioned below.

property will be subject to the charge of Union Bank of India for the amount mentioned herein below. The borrower(s) attention is invited to provisions of section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the

Borrower (s)/ Guarantor(s)	Branch	Date of Demand Notice & Amount	Details of the Properties	Date of Possession	
Borrower : Sh. Teerath Awana,	Khoda Colony Branch: FA10/A, Deepak Vihar, Khoda Colony, Opp. Sector 57, Noida, Dist- GB Nagar. 201301 (UP)	07-01-2017 Rs. 54,35,224/- +together with interest	Flat No. 1412, 14th Floor, The Willows Dreamland Appartment, Plot No 6, Crossing Republic, NH 24, Ghaziabad-UP.	30-10-2018	
Borrower : Sh. Vikas Kumar and Smt. Vimla Devi,	Anand Vihar Branch: C-8, Anand Vihar, New Delhi- 110092	-8, Anand Vihar, New Delhi- 10092 +together with interest Brahmpura alias Bhogpu and District Ghaziabad, Utt	Residential Flat S-28/F-1, First Floor, DLF, Dilshad Extn-II, Ghaziabad, Uttar Pardesh, Super area measuring 650 sq.ft. situated in the area of Village Brahmpura alias Bhogpura, Paragana Loni, Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pardesh in the name of Sh. Vikas Kumar & Smt. Vimla Devi.	30-10-2018	
Borrower : Chandrik Dixit,	Sec-52, Hoshiyarpur, Noida Branch: Shop No. 1 & 2, Sharma Market, Near Red Light, Sector- 51, Noida, Dist- GB Nagar. 201301 (UP).	03-08-2018 Rs. 68,62,230/- +together with interest	Flat No. F 2B, First Floor, Unit No. F-2-B, Part Of Property No. C 197, Greater Kailash –I Part-I, New Delhi	02-11-2018	
Borrower : Mrs. Sarita Sharma & Mr. Pradeep Sharma and Sri Durga Prasad (Guarantor)	Sushant Lok Branch: G-6 A, Ground Floor, Bestech Central Square Mall, Sector- 56, Sushant Lok, Gurugram- 122011 Haryana	19-07-2018 Rs. 27,76,013/- +together with interest	Plot bearing No 1445/1718 RECT 247 killa 23/2 (5-12), near Bans wali Godown, Durga Colony Palwal Road, under ward No 8 of Sohna, Gurgaon, Haryana-122001	01-11-2018	
Borrower: V. S. Metallic pvt. Ltd.,	Mid Corporate Branch: 334/350, Khajoor Road, Near	13-08-2018 Rs.	Property Built up with No. 164 (Old No. 134, Plot No. 1 & 8), Richpalpuri, Ghaziabad, (Corner Plot)	01-11-2018	

20.92.69.338.19/-

+together with interest

(A.K. TANEJA) Place: New Delhi (VINOD RAHEJA) CHIEF FINANCIAL OFFICER Date: November 03, 2018 MANAGING DIRECTOR

3 Months Ended

September

30th 2018

49323

653

49976

Standalone

Period Ended

September

30th 2018

95190

1204

96394

For and on behalf of the Board Place: Kolkata Dated: 02.11.2018